



# भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

## साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

खंड 29

27 जून, 2014

संख्या 26

### 1. भारतीय रिज़र्व बैंक – देयताएं और आस्तियां

(₹ बिलियन)

| मद                                      | 2013             | 2014             |                  | घट – बढ़      |                 |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|
|                                         | 21 जून           | 13 जून           | 20 जून           | सप्ताह        | वर्ष            |
|                                         | 1                | 2                | 3                | 4             | 5               |
| <b>1 जारी नोट</b>                       | <b>12,170.67</b> | <b>13,657.41</b> | <b>13,569.74</b> | <b>-87.67</b> | <b>1,399.07</b> |
| 1.1 संचलन में नोट                       | 12,170.60        | 13,657.28        | 13,569.61        | -87.67        | 1,399.01        |
| 1.2 बैंकिंग विभाग में रखे नोट           | 0.07             | 0.13             | 0.13             | —             | 0.07            |
| <b>2 जमा राशियां</b>                    |                  |                  |                  |               |                 |
| 2.1 केंद्र सरकार                        | 1.00             | 1.01             | 1.01             | —             | —               |
| 2.2 बाजार स्थिरीकरण योजना               | —                | —                | —                | —             | —               |
| 2.3 राज्य सरकार                         | 0.42             | 0.42             | 0.42             | —             | —               |
| 2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक               | 2,985.58         | 3,433.92         | 3,269.17         | -164.75       | 283.59          |
| 2.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक          | 31.90            | 37.65            | 34.38            | -3.27         | 2.48            |
| 2.6 अन्य बैंक                           | 146.61           | 172.78           | 169.86           | -2.92         | 23.25           |
| 2.7 अन्य                                | 121.82           | 152.17           | 149.76           | -2.42         | 27.93           |
| 3 अन्य देयताएं                          | 8,082.78         | 8,411.24         | 8,672.62         | 261.39        | 589.84          |
| <b>कुल देयताएं / आस्तियां</b>           | <b>23,540.79</b> | <b>25,866.60</b> | <b>25,866.96</b> | <b>0.36</b>   | <b>2,326.17</b> |
| 1 विदेशी मुद्रा आस्तियां                | 15,399.90        | 17,164.68        | 17,478.45        | 313.77        | 2,078.55        |
| 2 सोने के सिक्के और सोना-चांदी          | 1,290.00         | 1,227.33         | 1,227.33         | —             | -62.68          |
| 3 रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित) | 6,546.88         | 6,780.00         | 6,706.75         | -73.25        | 159.87          |
| <b>4 ऋण और अग्रिम</b>                   |                  |                  |                  |               |                 |
| 4.1 केंद्र सरकार                        | —                | 248.30           | —                | -248.30       | —               |
| 4.2 राज्य सरकारें                       | 5.51             | 8.33             | 16.47            | 8.14          | 10.95           |
| 4.3 नाबार्ड                             | —                | —                | —                | —             | —               |
| 4.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक               | 183.71           | 190.44           | 198.23           | 7.79          | 14.53           |
| 4.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक          | —                | —                | —                | —             | —               |
| 4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक          | —                | —                | —                | —             | —               |
| 4.7 भारतीय निर्यात-आयात बैंक            | —                | —                | —                | —             | —               |
| 4.8 अन्य                                | 9.96             | 66.16            | 66.05            | -0.11         | 56.09           |
| <b>5 खरीदे और भुनाए गए बिल</b>          |                  |                  |                  |               |                 |
| 5.1 वाणिज्यिक                           | —                | —                | —                | —             | —               |
| 5.2 खजाना                               | —                | —                | —                | —             | —               |
| 6 निवेश                                 | 13.20            | 13.20            | 13.20            | —             | —               |
| 7 अन्य आस्तियां                         | 91.61            | 168.17           | 160.48           | -7.69         | 68.87           |

### 2. विदेशी मुद्रा भंडार

| मद                                        | 20 जून 2014 को  |                  | निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ |                |                          |                 |                |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
|                                           |                 |                  | सप्ताह                     |                | मार्च 2014 की समाप्ति पर |                 | वर्ष           |                 |
|                                           | ₹ बिलियन        | मिलि.अम. डॉलर    | ₹ बिलियन                   | मिलि.अम. डॉलर  | ₹ बिलियन                 | मिलि.अम. डॉलर   | ₹ बिलियन       | मिलि.अम. डॉलर   |
|                                           | 1               | 2                | 3                          | 4              | 5                        | 6               | 7              | 8               |
| <b>1 कुल भंडार</b>                        | <b>18,957.1</b> | <b>314,922.1</b> | <b>317.7</b>               | <b>1,385.5</b> | <b>673.3</b>             | <b>10,698.9</b> | <b>1,938.7</b> | <b>27,076.4</b> |
| 1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां                | 17,357.9        | 287,961.7        | 312.1                      | 1,372.7        | 748.8                    | 11,602.4        | 2,019.8        | 29,529.0        |
| 1.2 स्वर्ण                                | 1,227.3         | 20,790.4         | —                          | —              | -68.9                    | -776.4          | -62.7          | -2,045.6        |
| 1.3 विशेष आहरण अधिकार                     | 268.6           | 4,455.8          | 4.1                        | 9.3            | 0.3                      | -7.8            | 9.1            | 83.2            |
| 1.4 आइएमएफ में प्रारक्षित भंडार की स्थिति | 103.3           | 1,714.2          | 1.5                        | 3.5            | -6.9                     | -119.3          | -27.5          | -490.2          |

### 3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास जमा नकद शेष

(राशि ₹ बिलियन में)

| 27 जून 2014 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएँ = ₹ 3,252.2 बिलियन | 2014    |         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                                                         | 14 जून  | 15 जून  | 16 जून  | 17 जून  | 18 जून  | 19 जून  | 20 जून  | 21 जून | 22 जून | 23 जून | 24 जून | 25 जून | 26 जून |
|                                                                                                         | 1       | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     |
| भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक नकदी शेष                                                            | 3,444.4 | 3,444.4 | 3,252.9 | 3,269.9 | 3,269.5 | 3,260.7 | 3,269.3 |        |        |        |        |        |        |
| औसत दैनिक आरक्षित नकदी अनुपात के प्रतिशत के रूप में नकदी शेष                                            | 105.9   | 105.9   | 100.0   | 100.5   | 100.5   | 100.3   | 100.5   |        |        |        |        |        |        |

## 4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ बिलियन)

| मद                                             | 13 जून<br>2014 को बकाया | निम्नलिखित अवधि में घटबढ़ |                      |               |                |                |
|------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                |                         | पखवाड़ा                   | वित्त वर्ष में अब तक |               | वर्ष-दर-वर्ष   |                |
|                                                |                         |                           | 2013-2014            | 2014-2015     | 2013           | 2014           |
|                                                |                         |                           | 3                    | 4             | 5              | 6              |
| <b>1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं</b>      |                         |                           |                      |               |                |                |
| 1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां        | 816.5                   | -9.3                      | 15.4                 | 39.4          | 72.4           | -45.4          |
| 1.2 बैंकों से उधार                             | 368.0                   | 35.8                      | -62.7                | 18.3          | 8.0            | 37.1           |
| 1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं                | 60.2                    | -33.0                     | -45.7                | -74.8         | -20.1          | 15.0           |
| <b>2 अन्य के प्रति देयताएं</b>                 |                         |                           |                      |               |                |                |
| 2.1 कुल जमाराशियां                             | 79,008.9                | -279.6                    | 1,853.9              | 1,953.3       | 8,176.6        | 9,650.5        |
| 2.1.1 वृद्धि (प्रतिशत)                         |                         | -0.4                      | 2.7                  | 2.5           | 13.4           | 13.9           |
| 2.1.1.1 मांग                                   | 7,309.4                 | -266.9                    | -219.1               | 170.1         | 522.3          | 905.5          |
| 2.1.1.2 मीयादी                                 | 71,699.6                | -12.8                     | 2,073.0              | 1,783.2       | 7,654.2        | 8,745.0        |
| 2.2 उधार                                       | 2,016.2                 | -30.8                     | 21.7                 | -194.2        | 216.2          | -222.1         |
| 2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं                | 4,408.0                 | -59.5                     | -66.8                | 24.7          | 154.0          | 358.5          |
| <b>3 रिज़र्व बैंक से उधार</b>                  | <b>190.4</b>            | <b>-122.1</b>             | <b>-29.5</b>         | <b>-225.7</b> | <b>151.2</b>   | <b>4.1</b>     |
| <b>4 रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि</b> | <b>3,910.2</b>          | <b>70.1</b>               | <b>418.4</b>         | <b>288.0</b>  | <b>108.2</b>   | <b>264.2</b>   |
| 4.1 उपलब्ध नकदी                                | 476.3                   | -19.2                     | 22.9                 | 17.6          | 37.6           | 48.5           |
| 4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि               | 3,433.9                 | 89.3                      | 395.6                | 270.5         | 70.6           | 215.7          |
| <b>5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां</b>       |                         |                           |                      |               |                |                |
| 5.1 अन्य बैंकों में जमाशेष                     | 1,174.6                 | -13.4                     | -0.6                 | 112.3         | 226.4          | 214.5          |
| 5.2 मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि         | 278.7                   | 35.9                      | -80.9                | 0.7           | -18.0          | 63.5           |
| 5.3 बैंकों को अग्रिम                           | 191.5                   | -0.1                      | 14.2                 | 24.1          | 12.3           | 50.4           |
| 5.4 अन्य आस्तियां                              | 228.1                   | -38.6                     | -205.3               | -214.6        | -116.3         | -382.3         |
| <b>6 निवेश</b>                                 | <b>22,951.5</b>         | <b>-85.6</b>              | <b>1,076.8</b>       | <b>823.2</b>  | <b>2,672.3</b> | <b>1,813.6</b> |
| 6.1 वृद्धि (प्रतिशत)                           |                         | -0.4                      | 5.4                  | 3.7           | 14.5           | 8.6            |
| 6.1 सरकारी प्रतिभूतियों में                    | 22,931.2                | -85.2                     | 1,079.4              | 819.2         | 2,677.1        | 1,815.3        |
| 6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में             | 20.3                    | -0.4                      | -2.6                 | 4.0           | -4.8           | -1.7           |
| <b>7 बैंक ऋण</b>                               | <b>60,900.3</b>         | <b>226.7</b>              | <b>868.7</b>         | <b>959.3</b>  | <b>6,328.4</b> | <b>7,427.1</b> |
| 7.1 वृद्धि (प्रतिशत)                           |                         | 0.4                       | 1.7                  | 1.6           | 13.4           | 13.9           |
| 7 क.1 खाद्य ऋण                                 | 1,097.3                 | -68.4                     | 147.1                | 112.6         | 56.0           | -14.0          |
| 7 क.2 खाद्येतर ऋण                              | 59,803.0                | 295.1                     | 721.5                | 846.8         | 6,272.4        | 7,441.1        |
| 7 ख.1 ऋण, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट                | 58,715.0                | 286.0                     | 903.6                | 1,024.3       | 6,045.6        | 7,219.7        |
| 7 ख.2 देशी बिल-खरीदे गए                        | 352.6                   | -12.1                     | -7.7                 | -31.8         | 79.0           | 111.7          |
| 7 ख.3 भुनाए गए                                 | 1,157.9                 | -27.8                     | -4.5                 | 52.1          | 127.6          | 67.8           |
| 7 ख.4 विदेशी बिल-खरीदे गए                      | 231.0                   | -12.4                     | -8.2                 | -31.9         | 12.8           | 24.3           |
| 7 ख.5 भुनाए गए                                 | 443.9                   | -6.9                      | -14.6                | -53.2         | 63.4           | 3.7            |

## 5. अनुपात और दरें

(प्रतिशत)

| मद/समाप्त सप्ताह                                    | 2013       | 2014        |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                     | 21 जून     | 23 मई       | 30 मई       | 6 जून       | 13 जून      | 20 जून      |
|                                                     | 1          | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| <b>अनुपात</b>                                       |            |             |             |             |             |             |
| आरक्षित नकदी निधि अनुपात                            | 4.00       | 4.00        | 4.00        | 4.00        | 4.00        | 4.00        |
| सांविधिक चलनिधि अनुपात                              | 23.00      | 23.00       | 23.00       | 23.00       | 23.00       | 22.50       |
| नकदी-जमाराशि अनुपात                                 | ..         | ..          | 4.84        | ..          | 4.95        | ..          |
| ऋण-जमाराशि अनुपात                                   | ..         | ..          | 76.52       | ..          | 77.08       | ..          |
| वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात                         | ..         | ..          | 32.81       | ..          | 49.11       | ..          |
| निवेश-जमाराशि अनुपात                                | ..         | ..          | 29.05       | ..          | 29.05       | ..          |
| वृद्धिशील निवेश-जमाराशि अनुपात                      | ..         | ..          | 40.70       | ..          | 42.14       | ..          |
| <b>दरें</b>                                         |            |             |             |             |             |             |
| नीतिगत रिपो दर                                      | 7.25       | 8.00        | 8.00        | 8.00        | 8.00        | 8.00        |
| रिर्स रिपो दर                                       | 6.25       | 7.00        | 7.00        | 7.00        | 7.00        | 7.00        |
| मार्जिनल स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर                  | 8.25       | 9.00        | 9.00        | 9.00        | 9.00        | 9.00        |
| बैंक दर                                             | 8.25       | 9.00        | 9.00        | 9.00        | 9.00        | 9.00        |
| आधार दर                                             | 9.70/10.25 | 10.00/10.25 | 10.00/10.25 | 10.00/10.25 | 10.00/10.25 | 10.00/10.25 |
| सावधी जमा दर >1 वर्ष                                | 7.50/9.00  | 8.00/9.05   | 8.00/9.05   | 8.00/9.05   | 8.00/9.05   | 8.00/9.05   |
| बचत जमाराशि दर                                      | 4.00       | 4.00        | 4.00        | 4.00        | 4.00        | 4.00        |
| मांग मुद्रा दर (भारंकित औसत)                        | 7.26       | 7.87        | 7.78        | 7.90        | 8.00        | 8.18        |
| 91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय                   | 7.44       | 8.65        | 8.65        | 8.52        | 8.56        | 8.56        |
| 182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय                  | 7.40       | 8.71        | ..          | 8.60        | ..          | 8.66        |
| 364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय                  | ..         | ..          | 8.70        | ..          | 8.60        | ..          |
| 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय                       | 7.43       | 8.68        | 8.67        | 8.52        | 8.59        | 8.70        |
| <b>भारिबैं संदर्भ दर और फार्वर्ड प्रीमिआ</b>        |            |             |             |             |             |             |
| आईएनआर-अमरीकी डॉलर स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा) | 59.35      | 58.48       | 59.03       | 59.20       | 59.48       | 60.28       |
| आईएनआर-यूरो स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)        | 78.59      | 79.81       | 80.34       | 80.83       | 80.71       | 82.12       |
| अमरीकी डॉलर का फार्वर्ड प्रीमिआ 1-माह               | 6.87       | 8.62        | 8.13        | 8.41        | 8.57        | 8.56        |
| 3-माह                                               | 6.40       | 8.48        | 8.54        | 8.65        | 8.68        | 8.76        |
| 6-माह                                               | 5.96       | 8.38        | 8.54        | 8.82        | 8.61        | 8.66        |

## 6. मुद्रा भंडार : घटक और स्रोत

(₹ बिलियन)

| मद                                                 | निम्न को बकाया |          | निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ |       |                      |       |           |       |              |      |          |       |
|----------------------------------------------------|----------------|----------|----------------------------|-------|----------------------|-------|-----------|-------|--------------|------|----------|-------|
|                                                    | 2014           |          | पखवाड़ा                    |       | वित्त वर्ष में अब तक |       |           |       | वर्ष-दर-वर्ष |      |          |       |
|                                                    |                |          |                            |       | 2013-2014            |       | 2014-2015 |       | 2013         |      | 2014     |       |
|                                                    | 31 मार्च       | 13 जून   | राशि                       | %     | राशि                 | %     | राशि      | %     | राशि         | %    | राशि     | %     |
|                                                    | 1              | 2        | 3                          | 4     | 5                    | 6     | 7         | 8     | 9            | 10   | 11       | 12    |
| एम३                                                | 95,066.4       | 97,538.5 | -84.1                      | -0.1  | 2,339.5              | 2.8   | 2,472.1   | 2.6   | 9,660.1      | 12.6 | 11,281.6 | 13.1  |
| 1 घटक                                              |                |          |                            |       |                      |       |           |       |              |      |          |       |
| 1.1 जनता के पास मुद्रा                             | 12,482.9       | 13,289.1 | 196.2                      | 1.5   | 515.0                | 4.5   | 806.2     | 6.5   | 1,022.3      | 9.4  | 1,362.9  | 11.4  |
| 1.2 बैंकों के पास मांग जमा राशि                    | 8,062.8        | 8,171.0  | -268.8                     | -3.2  | -264.5               | -3.5  | 108.3     | 1.3   | 540.2        | 8.0  | 896.5    | 12.3  |
| 1.3 बैंकों के पास मीयादी जमा राशि                  | 74,501.7       | 76,064.3 | -6.4                       | -     | 2,100.8              | 3.2   | 1,562.7   | 2.1   | 8,091.6      | 13.7 | 9,028.8  | 13.5  |
| 1.4 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमा राशि            | 19.1           | 14.0     | -5.1                       | -26.9 | -11.8                | -36.3 | -5.1      | -26.6 | 6.0          | 40.6 | -6.6     | -32.2 |
| 2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)                      |                |          |                            |       |                      |       |           |       |              |      |          |       |
| 2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण                          | 30,504.6       | 31,229.2 | 272.1                      | 0.9   | 2,074.3              | 7.7   | 724.6     | 2.4   | 3,914.5      | 15.5 | 2,061.5  | 7.1   |
| 2.1.1 रिज़र्व बैंक                                 | 7,077.5        | 7,038.1  | 338.6                      |       | 977.2                |       | -39.4     |       | 1,134.2      |      | 155.1    |       |
| 2.1.2 अन्य बैंक                                    | 23,427.1       | 24,191.1 | -66.5                      | -0.3  | 1,097.1              | 5.2   | 764.0     | 3.3   | 2,780.3      | 14.3 | 1,906.3  | 8.6   |
| 2.2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण                     | 64,497.0       | 65,270.7 | 225.6                      | 0.3   | 989.8                | 1.7   | 773.7     | 1.2   | 6,811.4      | 13.4 | 7,633.0  | 13.2  |
| 2.2.1 रिज़र्व बैंक                                 | 88.4           | 78.1     | -4.9                       |       | -9.3                 |       | -10.3     |       | -34.2        |      | 56.8     |       |
| 2.2.2 अन्य बैंक                                    | 64,408.6       | 65,192.6 | 230.4                      | 0.4   | 999.1                | 1.8   | 784.0     | 1.2   | 6,845.6      | 13.5 | 7,576.2  | 13.1  |
| 2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां | 18,998.4       | 19,364.8 | 167.3                      | 0.9   | 844.7                | 5.2   | 366.5     | 1.9   | 710.5        | 4.3  | 2,153.6  | 12.5  |
| 2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं          | 171.7          | 171.7    | —                          | —     | 3.8                  | 2.5   | —         | —     | 20.0         | 14.6 | 14.5     | 9.2   |
| 2.5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रेतर देयताएं       | 19,105.2       | 18,497.9 | 749.1                      | 4.2   | 1,573.1              | 9.6   | -607.4    | -3.2  | 1,796.4      | 11.1 | 580.9    | 3.2   |
| 2.5.1 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयताएं        | 8,524.2        | 8,383.8  | 115.1                      | 1.4   | 918.3                | 13.3  | -140.4    | -1.6  | 773.6        | 10.9 | 540.5    | 6.9   |

## 7. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ बिलियन)

| मद                                                               | निम्न को बकाया |          | निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ |       |                      |       |           |       |              |      |         |       |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------------------|-------|----------------------|-------|-----------|-------|--------------|------|---------|-------|
|                                                                  | 2014           |          | सप्ताह                     |       | वित्त वर्ष में अब तक |       |           |       | वर्ष-दर-वर्ष |      |         |       |
|                                                                  |                |          |                            |       | 2013-2014            |       | 2014-2015 |       | 2013         |      | 2014    |       |
|                                                                  | 31 मार्च       | 20 जून   | राशि                       | %     | राशि                 | %     | राशि      | %     | राशि         | %    | राशि    | %     |
|                                                                  | 1              | 2        | 3                          | 4     | 5                    | 6     | 7         | 8     | 9            | 10   | 11      | 12    |
| आरक्षित मुद्रा                                                   | 17,325.1       | 17,226.3 | -261.0                     | -1.5  | 363.3                | 2.4   | -98.9     | -0.6  | 829.2        | 5.6  | 1,714.1 | 11.0  |
| 1 घटक (1.1+1.2+1.3)                                              |                |          |                            |       |                      |       |           |       |              |      |         |       |
| 1.1 संचलन में करेंसी                                             | 13,009.0       | 13,741.3 | -87.7                      | -0.6  | 418.0                | 3.5   | 732.3     | 5.6   | 1,038.7      | 9.2  | 1,413.5 | 11.5  |
| 1.2 रिज़र्व बैंक के पास बैंक की जमा राशि                         | 4,297.0        | 3,473.4  | -170.9                     | -4.7  | -42.6                | -1.3  | -823.6    | -19.2 | -215.7       | -6.4 | 309.3   | 9.8   |
| 1.3 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमा राशि                          | 19.1           | 11.6     | -2.4                       | -17.3 | -12.1                | -37.2 | -7.5      | -39.3 | 6.2          | 43.4 | -8.8    | -43.1 |
| 2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)                                    |                |          |                            |       |                      |       |           |       |              |      |         |       |
| 2.1 रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण                | 7,077.5        | 6,724.2  | -313.9                     |       | 646.1                |       | -353.3    |       | 831.5        |      | 172.3   |       |
| 2.1.1 रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र को दिया गया निवल ऋण             | 7,059.7        | 6,708.2  | -322.0                     |       | 641.8                |       | -351.6    |       | 829.9        |      | 161.4   |       |
| 2.2 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण | 574.9          | 277.3    | 7.7                        |       | -227.4               |       | -297.6    |       | 76.4         |      | 70.6    |       |
| 2.2.1 रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को दिया गया ऋण                  | 486.5          | 199.6    | 8.0                        |       | -218.1               |       | -286.9    |       | 109.4        |      | 14.2    |       |
| 2.3 रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां                  | 18,025.3       | 18,705.5 | 313.8                      | 1.7   | 1,109.0              | 7.1   | 680.2     | 3.8   | 630.8        | 3.9  | 2,015.9 | 12.1  |
| 2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता                          | 171.7          | 171.7    | —                          | —     | 3.8                  | 2.5   | —         | —     | 20.0         | 14.6 | 14.5    | 9.2   |
| 2.5 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयता                          | 8,524.2        | 8,652.4  | 268.6                      | 3.2   | 1,168.1              | 16.9  | 128.2     | 1.5   | 729.5        | 9.9  | 559.2   | 6.9   |

## 8. भारिबैं द्वारा चलनिधि संबंधी लेनदेन

(₹ बिलियन)

| दिनांक      | चलनिधि समायोजन सुविधा |             |            |                   | एमएसएफ | स्थायी चलनिधि सुविधा | ओएमओ (एकमुश्त) |      | निवल अंतर्वेशन<br>(+) / अवशोषण (-)<br>(1+3+5+6+8-2-4-7) |
|-------------|-----------------------|-------------|------------|-------------------|--------|----------------------|----------------|------|---------------------------------------------------------|
|             | रिपो                  | रिवर्स रिपो | सावधि रिपो | सावधि रिवर्स रिपो |        |                      | विक्रय         | क्रय |                                                         |
|             | 1                     | 2           | 3          | 4                 |        |                      | 5              | 6    |                                                         |
| 16 जून 2014 | 218.10                | 41.70       | —          | —                 | 2.10   | 112.80               | —              | —    | 291.30                                                  |
| 17 जून 2014 | 210.11                | 27.23       | —          | —                 | 9.71   | 0.90                 | —              | —    | 193.49                                                  |
| 18 जून 2014 | 206.09                | 87.56       | 100.02     | —                 | 0.71   | -56.40               | —              | —    | 162.86                                                  |
| 19 जून 2014 | 117.34                | 35.55       | —          | —                 | 2.85   | -47.90               | —              | —    | 36.74                                                   |
| 20 जून 2014 | 116.26                | 20.47       | 100.00     | —                 | 7.80   | 2.10                 | —              | —    | 205.69                                                  |

## 9. प्रमुख मूल्य सूचकांक

| मद                                                                  | 2013         |              | 2014         |              | निम्नलिखित अवधि में प्रतिशत घट-बढ़ |            |            |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|------------|------------|
|                                                                     | अप्रैल       | मई           | अप्रैल       | मई           | माह                                | मार्च      | वर्ष       |
|                                                                     | 1            | 2            | 3            | 4            | 5                                  | 6          | 7          |
| <b>1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2010=100)</b>                          | <b>128.1</b> | <b>129.2</b> | <b>139.1</b> | <b>139.9</b> | <b>0.6</b>                         | <b>1.3</b> | <b>8.3</b> |
| 1.1 ग्रामीण                                                         | 128.7        | 129.8        | 140.5        | 141.3        | 0.6                                | 1.1        | 8.9        |
| 1.2 शहरी                                                            | 127.4        | 128.4        | 137.2        | 138.1        | 0.7                                | 1.5        | 7.6        |
| <b>2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2001=100)</b> | <b>226.0</b> | <b>228.0</b> | <b>242.0</b> | <b>..</b>    | <b>..</b>                          | <b>..</b>  | <b>..</b>  |
| <b>3 थोक मूल्य सूचकांक (2004-05=100)</b>                            | <b>171.3</b> | <b>171.4</b> | <b>180.2</b> | <b>181.7</b> | <b>0.8</b>                         | <b>0.8</b> | <b>6.0</b> |
| 3.1 प्राथमिक वस्तुएं                                                | 226.5        | 227.3        | 242.5        | 246.8        | 1.8                                | 3.1        | 8.6        |
| 3.2 ईंधन और बिजली                                                   | 193.7        | 191.9        | 211.0        | 212.1        | 0.5                                | - 1.0      | 10.5       |
| 3.3 विनिर्मित उत्पाद                                                | 149.1        | 149.3        | 153.8        | 154.6        | 0.5                                | 0.3        | 3.5        |

## 10. जमा प्रमाणपत्र

| समाप्त पखवाड़ा | बकाया राशि<br>(₹ बिलियन) | पखवाड़े के दौरान        |                       |
|----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                |                          | जारी राशि<br>(₹ बिलियन) | ब्याज दर<br>(प्रतिशत) |
|                |                          | 2                       | 3                     |
| 16 मई 2014     | 3,535.6                  | 147.5                   | 8.98 - 9.56           |
| 30 मई 2014     | 3,585.9                  | 317.2                   | 8.60 - 9.33           |

## 11. वाणिज्यिक पत्र

| समाप्त पखवाड़ा | बकाया राशि<br>(₹ बिलियन) | पखवाड़े के दौरान        |                          |
|----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                          | जारी राशि<br>(₹ बिलियन) | ब्याज की दर<br>(प्रतिशत) |
|                |                          | 2                       | 3                        |
| 31 मई 2014     | 1,824.2                  | 387.0                   | 8.35 - 12.87             |
| 15 जून 2014    | 1,969.2                  | 485.2                   | 8.14 - 12.54             |

## 12. चुनिंदा मुद्रा बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(₹ बिलियन)

| मद                        | समाप्त सप्ताह |             |             |
|---------------------------|---------------|-------------|-------------|
|                           | 21 जून 2013   | 13 जून 2014 | 20 जून 2014 |
|                           | 1             | 2           | 3           |
| 1 मांग मुद्रा             | 265.6         | 231.0       | 228.4       |
| 2 नोटिस/सावधि मुद्रा      | 83.7          | 79.2        | 61.8        |
| 3 सीबीएलओ                 | 1,423.4       | 996.6       | 1,152.5     |
| 4 बाजार रिपो              | 1,039.70      | 1,297.00    | 1,010.60    |
| 5 कॉर्पोरेट बांड में रिपो | —             | 2.2         | —           |

## 13. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल

(₹ बिलियन)

| 20 जून 2014 को | प्रमुख धारक |                   |               | कुल     |
|----------------|-------------|-------------------|---------------|---------|
|                | बैंक        | प्राथमिक व्यापारी | राज्य सरकारें |         |
|                | 1           | 2                 | 3             |         |
| 14-दिवसीय      | —           | —                 | 796.1         | 803.0   |
| 91-दिवसीय      | 407.2       | 356.8             | 429.8         | 1,628.2 |
| 182-दिवसीय     | 194.1       | 297.0             | 74.1          | 763.3   |
| 364-दिवसीय     | 385.6       | 569.1             | 7.5           | 1,427.3 |
| सीएमबी         | —           | —                 | —             | —       |

## 14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए बाजार उधार

(अंकित मूल्य ₹ बिलियन में)

| मद               | जुटाई गई सकल राशि           |                             |         | जुटाई गई निवल राशि          |                             |         |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|-----------------------------|-----------------------------|---------|
|                  | 2014-15<br>(20 जून 2014 तक) | 2013-14<br>(21 जून 2013 तक) | 2013-14 | 2014-15<br>(20 जून 2014 तक) | 2013-14<br>(21 जून 2013 तक) | 2013-14 |
|                  | 1                           | 2                           | 3       | 4                           | 5                           | 6       |
| 1. भारत सरकार    | 1,680.0                     | 1,350.0                     | 5,635.0 | 928.9                       | 1,222.5                     | 4,684.9 |
| 2. राज्य सरकारें | 377.7                       | 307.9                       | 1,966.6 | 218.0                       | 159.0                       | 1,645.9 |

व्याख्यात्मक टिप्पणियां भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन में उपलब्ध हैं।

उपर्युक्त जानकारी इंटरनेट पर <http://www.wss.rbi.org.in> से प्राप्त की जा सकती है।

समय श्रृंखला आंकड़े इंटरनेट पर <http://dbie.rbi.org.in> पर उपलब्ध हैं।

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक का एक वर्ष के लिए शुल्क (डाक व्यय सहित) भारत में ₹ 1200 तथा विदेश में 40 अमरीकी डॉलर है।

श्री संजय कुमार हाँसदा द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगतसिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 की ओर से मुद्रित एवं प्रकाशित और प्रिंटोग्राफी सिस्टम्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, 24-बी, अंबालाल दोशी मार्ग, राजा बहादुर कंपाउंड, 103, भू-तल, फोर्ट, मुंबई - 400 023 में मुद्रित।

संपादक श्री संजय कुमार हाँसदा।